

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Lotus Corporate Park, 'E' Wing, 5th/6th Floor, 185/A, Graham Firth Compound, Near Jay Coach, Goregaon (East), Mumbai 400 063, INDIA.

Phone: (022) 4219 8800/6122 8989 Fax (022) 42198830 E-mail: info@sutlejtextiles.com Website: www.sutlejtextiles.com

CIN.: L17124RJ2005PLC020927

Scrip Code: SUTLEJTEX

28th July, 2023

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai 400 001.

Scrip Code: 532782

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

Dear Sirs / Madam,

Sub: Notice of 18th Annual General Meeting - Newspaper Publication

This is further to our letter dated 27th July, 2023 and pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Dainik Bhaskar (Hindi) with regard to the 18th Annual General Meeting of the Company.

You are requested to take note of the same.

Thanking you

Yours faithfully

For Sutlej Textiles and Industries Limited

Bhawanimandi RAJ.) (RAJ.)

Manoj Contractor
Company Secretary and Compliance Officer

Mumbai

July 27, 2023

PSP

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001. Website: www.tatamotors.com E-mail: inv_rel@tatamotors.com Corporate Identification No. (CIN) - L28920MH1945PLC004520

Notice

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to SEBI Operational Circular dated August 10, 2021 and FAQs for Listing of Commercial Papers (CPs) that the Record Date and Redemption of Commercial Paper issued and listed on Wholesale Debt Market Segments of National Stock Exchange of India Limited have been fixed as under:

Name of the Issuer	ISIN	Due Date	Record date	Purpose (Interest/ Redemption/ Call Put Option/ if any)
Tata Motors Limited	INE155A14SW3	September 26, 2023	September 25, 2023	Redemption
Tata Motors Limited	INE155A14SX1	September 29, 2023	September 28, 2023	Redemption
Tata Motors Limited	INE155A14SY9	October 13, 2023	October 12, 2023	Redemption
Tata Motors Limited	INE155A14SZ6	October 23, 2023	October 22, 2023	Redemption

For Tata Motors Limited

Sd/ **Maloy Kumar Gupta Company Secretary**





PSP Projects Limited

CIN: L45201GJ2008PLC054868

Registered Office: PSP House, Opp. Celesta Courtyard, Opp. Lane of Vikram Nagar Colony, Iscon-Ambli Road, Ahmedabad - 380 058 Website: www.pspprojects.com Email: grievance@pspprojects.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(₹ in Lakhs)

		Consolidated			
		Quarter ended		Year Ended	
Sr. No.	Particular	30-06-2023 (Unaudited)	30-06-2023 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	
1.	Total Income from Operations	51,928.80	35,366.22	1,96,280.69	
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items and Share of Profit/(Loss) from Joint Venture)	5,090.44	3,913.70	18,309.98	
3.	Net Profit for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary Items before Share of Profit/(Loss) from Joint Venture)	3,782.93	2,902.71	13,464.12	
4.	Net Profit for the period (after tax, Exceptional and Extraordinary Items and Share of Profit/(Loss) from Joint Venture)	3,784.77	2,903.71	13,194.12	
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,787.07	2,906.01	13,203.32	
6.	Paid-up Equity Share Capital - Face Value ₹10/- each	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
7.	Other Equity excluding Revaluation Reserves	*		76,499.25	
8.	Earnings Per Share of₹10/-each (in₹) (Not Annualised for Quarters)				
	Basic	10.51	8.07	36.65	
	Diluted	10.51	8.07	36.65	

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on July 27, 2023. (₹ in Lakhs)

2. Additional information on Standalone Unaudited Financial Results are as follows:

	Standalone			
	Quarte	Year Ended		
Particular		30-06-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	
Revenue from Operations	50,956.03	34,524.24	1,92,664.91	
Profit/(Loss) before tax and Exceptional item	4,941.99	3,840.68	18,014.31	
Profit/(Loss) after tax and Exceptional item	3,672.31	2,848.95	13,301.82	
3. The above is an extract of the detailed format of Financial	Results filled with the Stock	Exchanges und	ler Regulation 33	

3. T of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results for the quarter ended June 30, 2023 are available on the website of BSE Limited (URL: www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (URL: www.nseindia.com) and on company's website (URL: www.pspprojects.com) For and on behalf of Board of Directors

of PSP Projects Limited

Place: Ahmedabad Date : July 27, 2023

Prahaladbhai S. Patel Chairman, Managing Director & CEO DIN: 00037633

nuvama

Nuvama Wealth and Investment Limited

(Formerly known as Edelweiss Broking Limited)

Corporate Identity Number : U65100GJ2008PLC077462 Regd. Off: 2nd Floor, Office No. 201-203, Zodiac Plaza, Xavier College Road, Off C G Road, Ahmedabad 380009. Tel: 07940019900 | Website: www.nuvamawealth.com

Financial Results for the quarter ended June 30, 2023

(₹ in Millions, except per share data)

			Quarter Ended		Year Ended
	Particulars	June 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)	June 30, 2022 (Unaudited)	March 31, 2023 (Audited)
1	Total income from operations	3,231.75	3,114.83	2,704.38	12,125.00
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	509.75	5.11	616.79	1,856.84
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	509.75	5.11	616.79	1,856.84
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	378.65	21,46	454.96	1,422.37
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	378.65	14.03	454.96	1,414.94
6	Paid-up equity share capital (Face Value of ₹10/- Per Share)	4,304.54	4,304.54	4,304.54	4,304.54
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	2,887.41	2,480.48	1,510.60	2,480.48
8	Securities premium account	599.70	599.70	599.70	599.70
9	Net worth ¹	7,191.95	6,785.02	5,815.14	6,785.02
10	Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	29,006.39	24,860.90	16,362.37	24,860.90
11	Outstanding Redeemable Preference Shares (Face Value of ₹10/- Per Share)	NA	NA	N.A	NA
12	Debt Equity Ratio ²	4.03	3.66	2.81	3.66
13	Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each) - Basic (Refer note 5) - Diluted (Refer note 5)	0.88 0.88	0.05 0.05	1.06 1.06	3:30 3:30
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	207.83	207.83	207.83	207.83
16	Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.04	0.02	0.05	0.13
17	Interest Service Coverage Ratio (ISCR)*	1.97	1.01	3.24	2.21

Net worth = Equity share capital + Other Equity.

² Debt-equity Ratio = Total Debt (Debt securities + Borrowings other than debt securities) / Net worth.

Debt Service Coverage Ratio = Profit before tax and Finance cost excluding IND AS 116 impact / Finance cost excluding IND AS 116 impact + Total Debt.

Interest Service Coverage Ratio = Profit before tax and Finance cost excluding IND AS 116 impact / Finance cost excluding IND AS 116

Notes:

Mumbai, July 27, 2023

financialexp.epapr.in

- The above is an extract of the detailed format of quarter ended June 30,2023 financial results filed with the Stock Exchange in accordance. with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended (the 'Listing Regulations, 2015') and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of the financial results are available on the website of the Stock exchange (www.bseindia.com) and the Company's website (www.nuvamaweaith.com).
- For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (BSE) and on the Company's Website and can be accessed on the URL (www.nuvamawealth.com).
- 3. The above financial results of the Company are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors at its meeting held on July 27, 2023. 4. The above financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2023 have been subjected to limited review by the Statutory
- Auditors of the Company and the auditors have issued an unqualified review report. Earnings per share for the quarters ended June 30, 2023, March 31, 2023, and June 30, 2022 are not annualised.

For and on behalf of the Board of Directors

Rahul Jain

Managing Director & Chief Executive Officer DIN: 00387505

SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED Regd.Office: Pachpahar Road, Bhawanimandi - 326 502 (Rajasthan)

CIN: L17124RJ2005PLC020927 Tel: (07433)222052/82

NOTICE OF THE EIGHTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Eighteenth Annual General Meeting ('AGM') of Sutlei Textiles and Industries Limited ('the Company') will be held on Monday, 21st August, 2023 at 3.00 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business, as set out in the Notice of the AGM

The AGM will be convened in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder; provisions of the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the provisions of General Circular No. 10/2022 dated 28" December, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5" January, 2023 issued by SEBI and other applicable circulars issued by MCA. SEBI (collectively referred to as 'MCA and SEBI Circulars).

In compliance with the above mentioned provisions, Notice of the 18° AGM and the Annual Report has been emailed only to those members whose email IDs are registered with the Company / Depository Participant(s). The electronic dispatch of Annual Reports to members has been completed on Thursday, 27" July, 2023.

The Notice of 18° AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 are available on the Company's website www.sutlejtextiles.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of National Securities Depository Ltd. (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Instructions for Remote E-voting and E-voting during AGM

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the Listing Regulations read with SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09" December, 2020 relating to 'e-voting Facility Provided by Listed Entities', the Company is pleased to provide its members facility of remote e-voting and e-voting during the AGM. As per SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09" December, 2020 e-voting process will also be enabled for all individual demat account holders, by way of a single login credentials through their demat accounts/websites of Depository Participant(s). The Company has engaged the services of NSDL for providing e-voting service. Members are hereby informed that the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of 18" AGM will be transacted only through voting by electronic means. The process for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the Notice of 18" AGM.

The remote e-voting will commence on Friday, 18th August, 2023 (9.00 a.m. IST) and end on Sunday, 20th August, 2023 (5.00 p.m. IST). The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter. Once the vote is cast by a member, he / she will not be allowed to change it subsequently.

Members attending the AGM through VC / OAVM and who have not cast their vote on the resolutions forming part of the Notice through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting facility provided during the AGM. Members who have cast their vote through remote e-voting prior to the AGM can attend the AGM but will not be entitled to cast their vote again.

The Cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Monday, 14" August, 2023.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, 14" August, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or ashok.sherugar@linkintime.co.in.

The procedure for remote e-voting and e-voting at the AGM is provided in the notes to the Notice of the 18" AGM. Members who need assistance for participating in e-AGM through VC, can contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or through telephone on the number: 022-4886 7000 or 022-2499 7000. In case of any queries relating to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for members available at the Downloads Section of NSDL e-voting website at https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following no.: 022 - 4886 7000 or 022 - 2499 7000 / evoting@nsdl.co.in or may contact Mr. Ashok Sherugar, C-101 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Email ID: ashok.sherugar@linkintime.co.in, Telephone No. 022 -

Procedure to be followed by those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in AGM Notice:

- In case shares are held in physical mode please provide folio no., name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy) and AADHAAR (self-attested scanned copy) by email to
- b) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID) name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested copy) and AADHAAR (self-attested
- Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (a) or (b) as the case may be.

Procedure for joining the AGM through VC / OAVM and live webcast of AGM proceedings Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM or view the live webcast of the AGM at https://www.evoting.nsdl.com/by

using their remote e-voting login credentials and selecting the EVEN for Company's AGM. The detailed procedure for attending the AGM through VC / OAVM is mentioned in Notes to the Notice of AGM. Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for

joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting at the AGM. For SUTLEJ TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED

Manoj Contractor Company Secretary and Compliance Officer



TEGA INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: Godrej Waterside, Tower-II, Office No. 807, 8th Floor, Block DP-5, Salt Lake Sector V, Bidhannagar, Kolkata - 700091. Tel No.: +91 33 4093 9000, Fax No.: +91 33 4093 9075 Website: www.tegaindustries.com, Email: compliance.officer@tegaindustries.com

47™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD OVER VIDEO CONFERENCE, RECORD DATE AND DIVIDEND INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 47th (Forty Seventh) Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company is scheduled to be held on Tuesday, August 29, 2023 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules framed thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations, 2015) and relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, to transact the businesses as set out in the Notice convening the said AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. Members may note that the facility for appointment of Proxy will not be available for this AGM, being held through VC/OAVM.

The Members may note the following:

Place: Mumbai

Date: 27" July, 2023

- a) In compliance with the applicable regulatory requirements, electronic copies of the Notice of the AGM, inter alia, indicating the process and manner of electronic voting, and the Annual Report for the Financial Year 2022-23 will be sent to all the Members whose email addresses are registered with the Company and/or Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) and/or Depositories. The Annual Report alongwith the Notice of the AGM shall also be made available on the website of the Company at www.tegaindustries.com and the website of the RTA, Link Intime India Private Limited (LIIPL) at https://instavote.linkintime.co.in/ as well as on the website of the Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com.
- The Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system. Facility for voting through electronic voting system will also be made available at AGM (Insta Poll) through the e-voting services provided by LIIPL. Further, the Company has engaged the services of LIIPL to provide VC/OAVM facility for the AGM. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and manner of casting vote through e-voting are provided in the Notice of the AGM. The Members, who will be attending the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote through remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/LIIPL/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.
- Members holding shares in physical mode and who have not registered/updated their email IDs, are requested to register/update the same by sending an email request along with signed scanned request letter mentioning their folio no. and the email id that is to be registered along with the self-attested copy of the PAN card and self-attested copy of any document (i.e. Driving License, Passport, Aadhar card etc.) in support of the address of the Member to the Company's email id compliance.officer@tegaindustries.com and/or RTA's email id kolkata@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email IDs with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat account. d) Members may note that the Board of Directors in their meeting held on May 30,2023, have recommended a final dividend
- of ₹ 2/- per equity share(20%) of face value of ₹ 10/- each. The record date for the purpose of final dividend for the Financial Year 2022- 23 is Saturday, August 19, 2023. The dividend once approved by the members in the ensuing AGM, will be paid electronically through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/ cheques will be sent to their registered address. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's RTA (where shares are held in physical mode) to receive dividend directly into their bank account on the payout date. Members whose shareholding is in dematerialized mode are requested to notify any change in address or bank account
- details to their respective Depository Participant(s). Members whose shareholding is in physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time in line with the Circulars. We urge members to utilize the ECS mode for receiving dividends.
- Members may note that the Income Tax Act, 1961, (the IT Act) as amended by the Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by the Company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of shareholders. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend. To enable us to determine the appropriate TDS rate as applicable, shareholders are requested to submit relevant documents, in accordance with the provisions of the IT Act to the Company/ LIIPL, a separate e-mail communication in this regard shall be transmitted along with draft forms to all members.

August 22, 2023, only shall be entitled to avail the facility of e-voting, either through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. In case of any query and/or grievance, in respect of e-voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions

A person, whose name is recorded in the Register of Members of the Company, as on the cut-off date i.e. Tuesday,

(FAQs) available at https://instavote.linkintime.co.in (LIPL's Website) or contact LIPL at instavote@linkintime.co.in or call LIIPL's contact No. 022 - 4918 6000 for any further clarifications.

For Tega Industries Limited

Manjuree Rai Company Secretary ACS No. 12858

Place: Bangalore

Date: July 27, 2023.

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR KRANTHI EDIFICE PRIVATE LIMITED OPERATING IN EPC (ENGINEERING, PROCUREMENT AND CONSTRUCTION) AND SOLAR POWER PROJECT AT TELANGANA (Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS					
Π.	Name of the Corporate Debtor PAN/ CIN/ LLP No. of CD	M/s KRANTHI EDIFICE PRIVATE LIMITED, CIN NO. U45400TG2012PTC081034			
2.	Address of the registered office	Reg.office:3-5-784/2/8/A, Sri Sai Heights, Opp: —Pardagate, King Kothi, Hyderabad, Telangana-500029, India.			
3.	URL of website	Not applicable			
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	 A.Land & Building bearing GHMC No.1-55/4 JHS/1 admeasuring 1210 Sq.Yds in Sy.No.187 situated at Kondapur, Seri lingampally Mandal Rangareddy District. B.Solar power project-Immovable property situated at TadoorVillage, NagarkurnoolDistrict Telanganaadmeasuring 47.33 Acres of Land ir Sy.Nos.440,441, 442, 443, 444, 445, 445/A3 446, 447, 448, 454, 455/A, 456, 457, 457/7 457/8, 458, 458/8, 458/9. 			
5.	Installed capacity of main products/ Services	1.Installed Capacity 7.5 MW Solar PV project (Approval for 10 MW) 2.Various EPC projects in the field of irrigation such as canals, bridges, dams etc executed in past			
6.	Quantity and value of main products/services sold in the financial year 2021-22	65.58 lakhs units solar power and amount of Rs.4.2 Crs			
7.	Number of employees/ workmen	8 employees at Solar Power Project			
8.	Further details including last available financia statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	inkranthi@gmail.com			
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be obtained by sending an email at ipkranthi@gmail.com			
10	Last date for receipt of expression of interest	12-08-2023			
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	22-08-2023			
12.	Last date for submission of objections to provisional list	27-08-2023			
13.	Process email id to submit EOI	ipkranthi@gmail.com			
3.		Sd/-			
		Kalpana G, RP Reg No. IBBI/IPA-001/IP-P00756/2017-18/11288 H.No.16-11-19/4, G-1, Sri Lakshmi Nilayam,			

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

Saleem Nagar Colony,

Malakpet, Hyderabad-500036, TG.

For M/s Kranthi Edifice Private Ltd

(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

28/07/2023 and Hyderabad

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF **COFFEE DAY GLOBAL LIMITED** DELEVANT DARTICUL ARC

	RELEVA	ANT PARTICULARS
1	Name of corporate debtor	Coffee Day Global Limited
2	Date of incorporation of corporate debtor	06/12/1993
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC-Bangalore
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U85110KA1993PL0015001
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: No. 23/2, Coffeeday Square Vittal Mailya Road Bangalore 560001
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	20/07/2023 (order received on 25/07/2023)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	21/01/2024 (from the date of receipt of the order)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Mr. Shallendra Ajmera IBBI/IPA-001/IP-P00304/2017-2018/10568
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	Address: Ernst & Young LLP, 3rd Floor, Worldmark 1, Aerocity Hospitality, New Delhi, National Capital Territory of Delhi-110037. Email Id: Shailendra.ajmera@in.ey.com
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	Address: Ernst & Young LLP, 3rd Floor, Worldmark 1, Aerocity Hospitality, New Delhi, National Capital Temtory of Delhi-110037 Ernal Id: cirp.ccd@gmail.com
11	Last date for submission of claims	08/08/2023 (from the date of receipt of the order)
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and	Web link:
	(b) Details of Authorized Representatives	https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Bengaluru Bench has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Coffee Day Global Limited on 20 July 2023 (order received on 25 July 2023) The creditors of Coffee Day Global Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 8 August 2023 to the interim resolution professional at the address

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Signature of Interim Resolution Professional: Sd/ Name of Interim Resolution Professional: Mr. Shailendra Ajmera

Place: New Delhi

SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED CIN: L29199KA1985PLC006934 Registered & Corporate Office: No. 100&101, Bommasandra Industrial Area

Email: investors@suprajit.com, Web: www.suprajit.com NOTICE SUB: Transfer of Unclaimed Dividends and Equity Shares of the

Company to Investor Education and Protection Fund(IEPF). The Notice is published pursuant to Rule 6(3)(a) of the Investor Education and Protection Fund Authority(Accounting, Audit, Transfer and Refund)

Bengaluru - 560 099, Telephone: +91+80-43421100, Fax: +91-80-27833279

Amendment Rules, 2017(the Rules) read with Section 124(6) of the Companies Act, 2013(The ACT) notified by the Ministry of Corporate Affairs and as amended from time to time. The Rules interalia contain provisions of transfer of all the shares in respect of

which dividend has not been paid or claimed by the share holders for seven

consecutive years or more to the DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund Authority(herein after referred to as "Authority") In compliance with the requirements set out in the Rules, the Comapny has sent individual notices to the concerned shareholder(s) at their latest available

address as per the Company's/RTA's records, that, their shares and dividends unclaimed by them are liable to be transferred to the Authority under the said The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due

for transfer to DEMAT account of the Authority on its website at www.suprajit.com. The concerned shareholder(s) holding shares in physical forms and whose

shares are liable to be transferred to the Authority may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to the Authority as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stand registered in their names will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to DEMAT Account of the Authority by the due date as per proceedure stipulated in the Rules.

In case the Comapny does not receive any communication from the concerned share holders by October 10,2023 or such other date as may be extended, the Company shall with a view to complying with the requirements set our in the Rules, transfer the shares and unclaimed dividend to the Authority by the due date as per proceedures stipulated in the Rules.

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transfered to IEPF including all benefits accuring on such shares, if any, can be claimed back by them from Authority after following the proceedure prescribed by the Rules.

In case the share holders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company's Share Transfer Agent at Integrated Registry Management Services Private Limited, No.30, Ramana Residency,4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore - 560 003 Tel(080)2346 0815 to 818 Fax (080)2346 0819 EMail ID gopi@integratedindia.in.

> For SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED Medappa Gowda J Company Secretary & Compliance Officer.

Place: Kolkata

Date: July 27, 2023

ग्लैमर

सोशल ड्रामा

अक्षय की 'ओह माय गाँड 2' का गाना 'हर-हर महादेव' आउट



अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म 'ओह माय गॉड 2' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम भी लीड रोल में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का पहला गाना 'ऊंची ऊंची वादी' रिलीज हुआ था। वाहिब अब मेकर्स ने फिल्म का दूसरा गाना गाना 'हर-हर महादेव' भी रिलीज कर दिया है। गाने में अक्षय ने खुद को भोलेनाथ के रूप में ढालने का प्रयास किया है। लंबी-लंबी जटाएँ, चेहरे पर भस्म लगाकर अक्षय काफी दमदार लुक में दिखाई दे रहे हैं। गाने की शुरुआत में अक्षय सिंहासन पर बैठे हैं और उनके आस-पास शिव भक्तों की सेना दिखाई दे रही है. सभी भोलेनाथ की भक्ति में डूबे नजर आते हैं। 'हर-हर महादेव' गाने का म्युजिक विक्रम मोंट्रोज ने दिया है, गाने को उन्होंने ने ही गाया है। इस गाने के लिरिक्स शेखर अस्तित्व ने लिखे हैं। अक्षय ने भी इस गाने को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। ये फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी।

न्यू पोस्टर आउट

'गदर २' का टेलर आउट, ११ अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

सनी देओल की आने वार्ल फिल्म 'गदर 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सनी 22 साल बाद फिर तारा सिंह बनकर लौटे हैं। ट्रेलर की शुरुआत तारा (सनी) और सकीना (अमीषा पटेल) की बातचीत से स्टार्ट होती है। इन दोनों का बेटा चरणजीत पाकिस्तान चला जाता है, वहां पाकिस्तानी फौज का जनरल उसके ऊपर अत्याचार करता है। अपने बेटे को बचाने तारा एक बार फिर पाकिस्तान जाता है और यही से शुरू



होती है असली कहानी। करीब तीन मिनट के ट्रेलर में सनी ज्यादा दिख रहा है। अमीषा इस बार भी काफी मासूम लगी हैं। ट्रेलर में चार चेहरों को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। सनी एक सीन में पाकिस्तानी फौज के जनरल से कहते दिखते हैं...'अगर यहां के लोगों को दोबारा मौका मिले, हिंदुस्तान में बसने का तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी।' ये फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी।

लाभार्थियों को ५ करोड़ १४ लाख रुपए की राशि का किया हस्तांतरण

झालावाड़ इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर के लाभार्थियों से सीधा संवाद कर सब्सिडी योजना के राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के साथ जिला मुख्यालय पर भी गुरूवार को मिनी सचिवालय स्थित ऑडिटोरियम में लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ।

लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के तहत जिले में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के 1 लाख 19 हजार 99 लाभार्थियों को अप्रेल, मई एवं जून माह की करीब 5 करोड़ 14 लाख 84 हजार 184 रुपए की राशि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बटन दबाकर उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के इंदिरा गांभी ग्रैम मिलेंडर महिमदी ग्रोनना

उनके अनभव जाने। लाभार्थियों ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाकर आमजन को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कलेक्टर आलोक रंजन, एडीएम राधेश्याम डेलू, जिला परिषद के सीईओ नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, बीसुका जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर, समाज कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मीनाक्षी चंद्रावत, पूर्व विधायक कैलाश मीणा, मदनलाल वर्मा, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक आमिर खान सहित अन्य नागरिक एव

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती संघर्ष समिति अतिरिक्त निदेशक को जापन सौंपा



भारकर न्यज डालावाड

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती संघर्ष समिति की ओर से स्वास्थ्य भवन में मख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त निदेशक सुरेश नवल को ज्ञापन दिया गया। जिसमें सरकार की ओर से नसिंग ऑफिसर एएनएम भर्ती में कोर्ट केसेस को जल्द निस्तारित कर भर्ती परी करने की मांग की गई है। संविदा नर्सेज जिलाध्यक्ष हेमराज लोधा ने बताया कि सरकार की ओर से नर्सिंग ऑफिसर की उपाध्यक्ष प्रवीण मीणा, 8750 व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 4817 पदों पर सीफ की ओर से स्कैनिंग का कार्य पर लिया गया है। लेकिन कोर्ट में विचाराधीन केस के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया

रुकी हुई है। समिति ने मांग की है कि इन केसेस को निस्तारित कर आचार संहिता से पूर्व भर्ती को पूरा किया जाए, जल्द से जल्द डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन के कार्य पूरा किया जाए, जब तक भर्ती परी नही होती तब तक संविदा पर नर्सेज की कोई भर्ती नहीं निकाली जाए। इस पर अतिरिक्त निदेशक सुरेश नवल ने जल्द से जल्द केसेस को निस्तारित कर भर्ती को पूरा करने की बात कही। इस दौरान प्रदेश महासचिव चेतन नामदेव, जिला अध्यक्ष अभिषेक राठौर पारस कुमार कारपेंटर, सूजान सिंह लोधा नंद किशोर लोधा. दिनेश कारपेंटर, गजेंद्र गाडरी मौजूद रहे।

दैनिक भारकर

आक्रोश • गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पर किया विरोध-प्रदर्शन

रूपाखेडी गांव की मेघवाल बस्ती में इंटरलॉकिंग व नाली बनवाने की मांग

ग्राम पंचायत नोलाई के रूपाखेडी गांव के मेघवाल बस्ती के लोगों ने सड़क पर फैली गंदगी से आहत एसडीएम कार्यालय पर कर इंटरलॉकिंग व नाली निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन

ज्ञापन में ग्रामीणों ने पंचायत द्वारा इंटरलॉकिंग की राशि उठाने का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में बताया कि गांव के मेघवाल मोहल्ले वार्ड न. 6 में आम रास्ते पर निकासी के अभाव



जिससे गंदगी व बदबू फेल रही है। ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत में गंगाराम के मकान से

इंटरलॉकिंग लगाने व नाली निर्माण करवाने की भी मांग की। ग्राम पंचायत की लापरवाही से मेघवाल बस्ती के वाशिंदों को काफी

है। ज्ञापन देने वालो में वार्ड पंच गुमान सिंह, गंगाराम, कंवरलाल, नारायण लाल, नैन सिंह, नारायण लाल, नैन सिंह, मोहनलाल, जगदीश, विनोद, मोहनलाल. बालाराम, संजय कुमार सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।

🕨 कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। बजट के अभाव में वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं हुई है। बजट आते ही कार्य करवाया दिया जाएगा। काम के नाम पर राशि उठाने का आरोप बेबनियाद है।

- जयेश जैन, ग्राम विकास अधिकारी, नोलाई

ट्रक की टक्कर से द्वारकाधीश मंदिर का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त

झालरापाटन| शहर में गुरुवार को सुबह क़रीब साढ़े 9 बजे एक ट्रक की टक्कर से द्वारकाधीश मंदिर का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया। अब इस गेट के क्षतिग्रस्त हो जाने से कभी भी हादसा हो सकता है।

शहर में सुबह आठ बजे शाम तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित होने के बावजूद ट्रक चालक चौपाटी की ओर से द्वारिकाधीश मंदिर के गेट से होकर अपना ट्रक निकालने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ट्रक गेट से टकरा गया। जिससे गेट के पत्थर ढीले हो गए है। गौरतलब है कि यहां पर दिन भर वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। इधर समिति ने गेट के दोनों और भारी वाहनों के प्रवेश नहीं हो इसके लिए लोहे के एंगल लगा दिए हैं। वहीं देवस्थान विभाग को सूचित कर दिया है। उधर दुर्घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर



1796 में हुआ था गेट का निर्माण

इतिहासविद ललित शर्मा ने बताया कि ये गेट झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन का निर्माण करते समय सन् 1796 में बनवाए थे। इस गेट पर राजपूत स्थापत्य का प्रभाव है। ये गेर जिले की प्रेतिहासिक धरोहर है। इसका जल्दी निर्णय होना जरूरी है। इतिहास की धरोहर के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत

रावल-डावल रोड पर सड़क हादसे गंभीर घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को एम्बुलेंस से रायपुर अस्पताल पहुंचाया। व्यक्ति की हालत में घायल बाइक सवार की इलाज के दौरान बुधवार देर रात को जिला अस्पताल में मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार रायपुर थाना क्षेत्र ओसाव गांव निवासी भैरूलाल (50) पुत्र पुरीलाल गुर्जर बुधवार सुबह बाइक से झालरापाटन अस्पताल आया था। डॉक्टर को दिखाकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी बीच रावल-डावल गांव के पास सड़क पर

दिया। परिजन उसे झालावाड़ लेकर आए। जहां बुधवार देर रात इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। गुरुवार सुबह रायपुर पुलिस ने मृतक के भाई तुलसीराम की रिपोर्ट पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया। चोरी के मामले के दोषी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक

इलाज के बाद झालावाड़ रेफर कर

पिड़ावा न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बिका ने घर में घुसकर चोरी के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देकर 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक लोक अभियोजक उदय सिंह मीणा ने बताया कि पांच वर्ष पहले माथनिया गांव निवासी दिनेश दांगी ने घर में घुसकर जेवरात व नगदी चोरी के मामले में गांव के ही विष्ण मेहर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। पलिस ने इस मामले में अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश कर दिया। तब से प्रकरण विचाराधीन था। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम विष्णु मेहर दोषी मानकर सजा सुनाई है।

पार्षद ने नीलामी पर रोक लगाने की उठाई मांग

मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया

भारकर न्यूज | भवानीमंडी

शहर में दुकानों की नीलामी पर रोक लगाने की मांग को लेकर वार्ड नंबर 20 के पार्षद ने एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन

पार्षद अविनाश जायसवाल की दिए ज्ञापन में नई सब्जीमंडी में अच्छे भले सुलभ शौचालय को तोड़कर वहां दुकानें नीलामी को निरस्त की जाए।

निकालने की योजना पर रोक लगाएं। नई सब्जी मंडी में पालिका द्वारा दुकानें निकाली जा रही हैं। ये दुकानें अपने चहेते लोगों को दी जाएंगी। वही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने न्वनिर्मित तीन दुकानें व नया बस स्टैंड पर स्थित एक दुकान का आंवटन लॉटरी के द्वारा किए जाने

जहरीले जंतु के काटने से किसान की मौत

मिश्रोली रनायरा गांव के खेत में कृषि कार्य के दौरान जहरीले जंतु के

काटने से किसान की मौत हो गई। एएसआई अब्दुल सलीम ने बताया कि रनायरा गान . धीरप् सिंह रनायरा गांव निवासी

धीरप सिंह पुत्र मांगीलाल बुधवार को अपने खेत में बैंगन की फसल की देखभाल करने गया था। जहां जहरीले जंतु के काटने से वह अचेत हो गया। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश करने खेत पर पहुंचे, जहां वह फसलों के बीच अचेत पडा हुआ था। जिससे अन्य ग्रामीणों के सहायता से भवानीमंडी सीएचसी लाया गया। वहां चिकित्सकों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। गुरुवार को पोस्टमार्टम कर शव का परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने तूफानसिंह की रिपोर्ट पर संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर लिया है।

भाजपा १ अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगी: प्रदेश महामंत्री मीणा

अभियान का समापन 1 अगस्त को विधानसभा घेराव से होगा, इसमें आमजन भी लेंगे भाग

के प्रदेश भाजपा मोतीलाल मीणा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। साढ़े चार साल में प्रदेश में भष्टाचार चरम पर बढा है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साढे चार साल सिर्फ आमजन को भ्रमित ही किया है।

उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मीणा ने कहा प्रदेश में गहलोत ने जो वादे किए थे वे पूरे नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलना सहित अन्य सभी तरह के भ्रष्टाचार यहां हुए हैं, लेकिन अब गहलोत सरकार की

उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस इसी को लेकर अब जनता के बीच उल्टी गिनती को पूरी करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पांच माह भाजपा ने पंद्रह दिन का \'नहीं सहेगा राजस्थान' अभियान चलाया है, जो गांव-गांव में चल रहा है। अब 1 अगस्त को इसी अभियान के तहत जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस घेराव में आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। इसके लिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता

विधानसभा चनाव में बचे हैं. ऐसे में गहलोत सरकार अब आनन फानन में रेवडियां बांट रही हैं लेकिन जनता सब कुछ समझ रही है। इस मौके पर जिला प्रभारी छगन माहुर व भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन, मंडल अध्यक्ष सीएम धाभाइ ने भी विचार

यादव बने रेल उपयोगकर्ता करबे में मेगा हाइवे के पास मिला शव परामर्शदाञ्री समिति के सदस्य

झालावाड़| पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के उप महाप्रबंधक एवं सचिव अनुराग पांडेय ने



झालावाड़ जिले से शैलेंद्र यादव को रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन रेल उपयोगकर्ताओं

का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व प्राप्त करने तथा रेलों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित मामलों में उपयोगकर्ताओं और रेल प्रशासन के बीच विचार-विमर्श के लिए अवसर प्रदान करने के लिए जनवरी 2025 तक के लिए गया है।

मृतक की पहचान भोजूखेड़ी निवासी के रूप में हुई खानपुर (ग्रामीण) कस्बे के मेगा हाइवे पर निजी होटल के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। जिसकी पहचान भोजूखेड़ी गांव निवासी

राधेश्याम मीणा के रूप में हुई है। सीआई रामिकशन गोदारा ने बताया कि मेगा हाइवे पर निजी होटल के पास एक व्यक्ति का शव पडा होने का पता चलने पर वहां पहुंचे। तलाशी लेने पर उसके पास

आधार कार्ड से मिला, जिससे उसकी पहचान राधेश्याम मीणा (50) पुत्र धन्ना लाल मीणा निवासी भोजूखेड़ी के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि राधेश्याम की तबीयत खराब चल रही थी। वह दो दिन पहले खानपुर अस्पताल आया था। इसके बाद वह घर नहीं लौटा

पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव

ADMISSION मेडिकल में प्रवेश हेतु WEST KAZAKHSTAN RAT OSPANOV MEDICAL UNIVERSITY, AKTOBE हजारों भारतीय स्टूडेन्ट ज इंडियन मेस भारतीय भोजव बेस्ट टीचिंग हॉस्टल सुविधा हाँस्पिटल क्लासकम सहित परफेक्ट फेसेलिटिस 9414194080 व्यास 941413400 सल्दापाटन 7976556541 झालाबाइ 9982272048

सतलज टेक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज् लिमिटेड पंजी.कार्यात्यः पचचवात्र रोज, भवानीमंजी 326602 (राजस्थान)फोनः (07433)222052/52/50, फैन्सः (07433)2220 वेस्साईटःwww.sullejtextiles.com CIN NO : L17124RJ2005PLC020927, Email: stil.investor_grievance@sutlejtex

के 14 जुलाई को करवाया है। इस

अढारहवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

एतदृद्धारा सुचना दी जाती है कि सतलज टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज िलिप्टेड (कंपनी) की अठारहवीं बार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 21 अगस्त 2023 को दोपहर 3.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्क्रेंस (बीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की युचना में निर्देष्ट कारोबर पर कार्यवादी की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनयम, 2013 को उसके अधीन बनाए गए नियमों (अधिनियम) के लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धलाकरण दायित्व एवं प्रकटन आयस्यकराए) विनियम 2015 (सूचीबद्धलाकरण विनियम) के प्रायक्षानों और कंपनी कार्य मंत्रात्मव, भारत सरकार (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परियम सं. 10/2022 दिसांक 28 दिसांस, 2022, और सेबी द्वारा जारी दिनांक 50 जनवरी, 2023 के परियम

सरकार (एमसाए) द्वारा जारा सामान्य पारपत्र सं. 10/2022 (दानाक 28) दासकर, 2022, आर सवा द्वारा जारा तनाक 60 क्यायवानी के अपयानाने सं. सेवी /एका) 'भीएकडी /पीओडी 80-21 (भीडी आंत्राज्य राज्य क्यायवानी के अपयानाने के अपयानाने के अपयानाने के आप्यानाने के आप्यानाने के आप्यानाने के आप्यानाने की जाएगी। वीरी/ओएसीएस के माध्यम से माग लेने वाले पारप्त की माध्यम अधिनियम की घारा 103 के आंतर्गत को रास के प्रयोजनार्थ की जाएगी। (सामृतिक कर से एमसीए और सेवी परिपत्तों के क्या मितिस्था)। उपयुक्त प्रात्याना के अपूनानान में 18वीं एकीएस की स्वार्यक्र कर्मानी हैं। अधिक अध्येत के अध्येत के अध्यानाने के अध्यानाने के स्थान की माध्य पंजीकृत है, सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण मुख्यार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर लिया

18वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.sutlejtextiles.com, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनत स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज एसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए निर्देश : र निर्माण के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के साथ पटित अधिनियम की धारा 108 और सूचीबद्ध कंपनियां द्वार प्रदार की जाने वाली 'ई वोटिंग सुविधा' से सबंधित सेबी परिपन्न सं. सेबी/एवओ/सीएकडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 विनांक स् विसंबर 2020 के साव पंटित सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के प्राथमानों के अनुपालन में कंपनी को एजीएमों के दौरान अपने सदस्यों को सुदूर ई-बोर्टिंग की सूचिम प्रदान करते हुए प्रसन्तता है, रोबी परिपन्न सं. सेबी/एचओ/सीएकडी/सीएसडी/सीआईआर/पी,2020/242 विनांक दिसंबर 2020 के जुनसा ई-बोर्टिंग मिक्रा यानी वैवलिकड़ और खालामड़कें कि एस एकड़े और खातीं, प्रियणिटरी सहमागियों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडिशियल्स के जरिए भी सक्रिय की जाएगी। कंपनी ने ई-बोर्टिंग सेवाएं प्रदान करने वे लिए एनएसडीएल की सेवाएं सी है। सदस्यों को इसके द्वारा सुचित किया जाता है कि 18वीं एजीएम की सूचना में यथा निर्दिग्ट साधारण और विशेष कारोबार इत द्वारा बोटिंग के माध्यम से किए जाएंगे। एजीएम में सुदूर ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया 18वीं एजीएम की सूचना में दी अई है। दरस्य ई-मदान अबिरी प्रकार 1.8 अगस्त 2023 (मारतीय सम्पादानस सब्ह 9,00 को से श्वार को जी परिवार, 20 अगस्त

द्वारों बांतर के भाग्यम सा तर जाए गाए राजार ने पुत्र के नाम निर्माण के स्वार इ.00 को) से शुरू होगी और रविवार, 20 अगस्त 2023 (भारतीय समयानुसार सुबह इ.00 को) से शुरू होगी और रविवार, 20 अगस्त 2023 (भारतीय समयानुसार साम इ.00 को) समार होगी, इसके पश्चात प्रत्य कर दिया जाएगा। एक बार शेयरबारक द्वारा मतदान करने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीडिया कॉन्फरेन्स(बीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साथगीं (ओएएए) के माध्यम से एजीएम में भाग ते वाले शेयरबारक और जिन्होंने सूचना के भार

रूप संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के मा . यम से अपना वोट नहीं डाला है और ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं है, वे एजीएम के दौरान दी गर् ्रभावित बुविधा के माध्यम से मत्त्वान करने के लिए पात्र होंगे, जिन स्वत्वस्था ने प्राप्त के प्राप्त के दौरान वी गई ई-गोर्टिंग बुविधा के माध्यम से मत्त्वान करने के लिए पात्र होंगे, जिन स्वत्वस्थां ने प्राप्तिएम से पहले दूररथ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, एजीएम में माग ले सकते हैं लेकिन किए से अपना मत डालने के अधिकारी नहीं होंगे। दूररथ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने और एजीएम में ई-मतदान करने की अंतिम तिथि सोमाग्र 14 समझ 2022 है।

रतिभार, १९ करारा २०२२ एजीएम की सुवान के प्रेमण के बाद कंपनी के शेवरों को प्राप्त करने और कंपनी का शेवरधारक बनने और अंतिम तिथि, अर्थात सोमवार, 14 अगस्त २०२३ को शेवर रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा evoling@nsdl.co.in या ashok.sherupar@inkinlime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगीन आईडी

और पासवर्ज प्राप्त किया जा सकता है । एजीएम में रिमोट ई बोटिंग और ई-बोटिंग के लिए प्रक्रिया 18वीं एजीएम के नोट में प्रदान की गई है । सदस्य, जिन्हें वीसी के माध्यम से ई-एजीएम में मार लेने के लिए सहायता की आवश्यकता हैं , पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से evoling@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर 022-4886 7000 / 022- 2499 7000 के माध्यम से संपर्क कर सकते है। ई-वोटिंग के मामले में सबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य एनएसडीएल 022-4886 7000 / 022-2499 7000 के माध्यम से समर्थ कर सकते हैं। ई-मोटिंग के मामते में सबीचत किसी थी प्रश्न के मामते में, सबस्य एनएसडीएए के मोटिंग से बताइट के डाउनलोस अनुमाम में उपलब्ध सकास पूर्व के साम को प्रश्न एक जाने हैं। और एनएसडीईएल ई-मोटिंग के साथ एक जाने के उन्हें प्रश्न एक जीवर के स्वाप्त एन के स्वीप्त के स्वाप्त के अनुमान विभाग में उपलब्ध सबस्यों के लिए ई-मोटिंग उपयोगकर्ता पुरिस्तम https://www.wolling.nsdi.com या निम्नलिखित नंबर 022-4886 7000 / 022-2499 7000 evoling@ssdi.com पर एनएसडीएल से संवर्ष कर सकते हैं या औ अशोक फेसमर, C-101, 247 पार्ट, 185 मार्ग, विकोशी (परिसम), मुम्बई-40088, ईमेल आईडी sabtok shrupa@@inthintime.co.in टेलीफोन मम्बर 022-4918600 से संवर्ष कर सकते हैं। इन सदस्या द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिनका ई-मेल आईडी, डिपॉजिस्टरी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे उपयोगकर्ता आईडी, विधापाससर्व प्राप्ति के लिए एवं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई-वोटिंग करने हेतु ई-मेल

पर्तो का पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका :

- यदि शेयर मीतिक मोड में रखे गए है तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की रकेन की हुई कांपी), पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्कैन की गई कांपी), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित स्कैन कांपी की प्रतिलिपि) प्रदान करें
- यदि शेयरे डीमेट मोड में है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंको की लाभार्थी आईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन(स्व सत्यापित की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि), प्रदान करें rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर ईमेल द्वारा
- प्रशासना, प्रथान पर Illusquess@minimiscount ने दु नराश्चरा व. वैकल्किक रूप से सदस्य पाईद (ओ (फ) पे उल्लिखित विवरण को प्रदान करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoling@nsdl.co.in पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते है। पीसी/ ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया और एजीएम की कार्यवाही का लाईव वेवकास्ट

रक https://www.evoting.nsdl.com पर अपने रिमोट ई-वोटिंग लॉगिन क्रिडेंशियल्स का प्रयोग करते हुए और कंपनी की एजीएम के लि शवरधारक mips://www.mooning.moo.com पर अपना रामाट इन्याटन लागना क्रशासवर का प्रयोग करता हुए आर कपना का एजाएम का लए "स्पर्धान" को तिलेक्ट करते हुए वीत्ती/ऑपरीएम के माध्यम से एजीएम में माग ले सकते हैं या एजीएम का लाईव वेककार देख सकते हैं। वीत्ती/ओदीएम में माध्यम से एजीएम में माग लेने के लिए विस्तुत प्रक्रिया एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में उल्लिखत की गई हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में निर्विच्ट सभी टिप्पणियों और विशेषकर एजीएम में शामिल होने से सर्वित अनुवेशों,

दुरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के तरीके से सबंधित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ लें।

कृते सतलज टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटे स्थान : मुंबई दिनांक : 27 जुलाई, 2023

परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एसआईएल इन्वेस्टमेन्टस लिमिटेड

पंजी.कार्यालय : पचपहाड़ रोड, भवानीमंडी 326502 (राजस्थान) फोन: (07433) 222082, फैक्स : (07433) 222916 वेबसाईट: www.silinvestments.in I CIN No. : L1730RJ1934PL0002761, Email: investor.grievances@silinvestments.is

नवासीवीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

पलद्वारा चुवना दी जाती है कि एसआईएल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेल (कंपनी) की नवासीवी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शानवार, 19 अगस्त 2023 को दोग्हर 12.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कोन्केंस (वीसी)/अन्य अव्य दृश्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम जेए सुपता में निर्वेद्ध करारोबर पर कार्यवादी की जाएगी। जिसमें प्रता प्रता है। साध्यम में माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम कंपनी अधिनयेम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों (अधिनयम) के लागू प्राचयानों और कंपनी कार्य मत्रात्वय, भारत (सुवीबद्धातकरण वाशिव एवं अकटन आवश्यकताए) विनियम 2015 (सुवीबद्धातकरण विनियम) के प्राचयानों और कंपनी कार्य मत्रात्वय, भारत सरकार (एमसीए) क्षारा जारी सामान्य परिपन्न सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022. और सेबी द्वारा जारी विनाक 65 जनवरी, 2023 के अरिपन्न सं. सेबी/एपओ/सीओडी-2/बी/सीआईआर/2023/4 और एमसीए/सेबी द्वारा जारी विनाक 65 जनवरी, 2023 के अनुपतान में आयोजित की जाएगी। वीसी/ओडी-2/बी/सीआईआर/2023/4 और एमसीए/सेबी द्वारा जारी विनाक के अनुपतान में आयोजित की जाएगी। वीसी/ओडी-2/बी/सीआईआर/2023/4 और एमसीए-सीची द्वारा जारी विनाक के अंतर्गत को अर्थनात्व की जाएगी। स्वाविक कर से एमसीए और सेबी विपन्नों के रूप में निर्वेद्ध) सर्थायनार्थ की जाएगी। स्वाविक कर से एमसीए और सेबी विपन्नों के रूप में निर्वेद्ध।

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में, 89वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट केवल उन शेयरधारकों को ई-मेल की गई है जिनका ई-मेल आइडी कंपनी/डियॉजटरी सहभागी के साथ पंजीकृत है, सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण गुरूवार, 27 जुलाई, 2023 को पूरा कर

89वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाईट www.silinvestmonts.in, स्टॉक एक्सर्बेजों अर्थात मीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सर्वेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bselndia.com और www.nselndia.com पर और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। रिमोट ई-बोटिंग और एजीएम के दौरान ई-बोटिंग के लिए निर्देश :

कंपनी (प्रवंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के साथ पवित अधिनियम की धारा 108 और सूचीबद्ध कंपनियां द्वार यदान की जाने वाली 'ई-बोर्टिंग सुविधा' से सम्बंधित सेबी परिपन्न सं. सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 रिनांक 9 दिसंबर 2020 के साथ पठित सूचीबद्धता विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी को एजीएम के दौरान अपने सदस्यों को सुदुर इं-योटिंग की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्नता है. सेबी परिपन्न स. सेबी/एपको/सीएफडी/सीएमडी/सीडाईआ/पी/2020 /242 विनांक 9 हिसंबर 2020 के अनुसार ई-योटिंग प्रक्रिया समें वैधवितक की पेट खातासारकों के तिए उनके डीमेट खातां/शियोजिटरी सामागियों की वेबसाईटों के माध्यम से एकल लागिन क्रेडिशियल्स के जरिए भी सक्रिय की जाएगी। कंपनी ने ई-योटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसडीएल ार है भारतमा रे पुरेश्वर मार्गामान्यावस्थार पर आरोर में शाहर को आरोग परणा है उसे दिन राजार प्रधान करने करने है एते हैं ! सदस्यों को इसके द्वारा सुवित किया जाता है कि 89वीं एजीएम की सुवना में कथा निर्देश्य साधार करनेशा रहत टिंग के माध्यम से किए जाएंगे। एजीएम में सुदूर ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया 89वीं एजीएम की सूचना में दी गई है।

दूरस्थ ई-मतदान अवधि बुधवार, 16 अगस्त, 2023 (भारतीय समयानुसार सुबह 9.00 बजे) से शुरू होगी और शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 (भारतीय गनुसार शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी, इसके पश्चात एनएसडीएल द्वारा मत गएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा मतदान करने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वीडिया कोन्फरेन्स(वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (ओएपीएम) के माध्यम से एजीएम में माग सेने वाले श्रेयरधारक और जिन्होंने सूचना के भाग रूप संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं डाला है और ऐसा करने से अन्यक्षा प्रतिबक्षित नहीं है, वे एजीएम के दौरान दी गई ई-वोटिंग युविधा के माध्यम से मतदान करने के जिए पात्र होंगे, जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूररूप ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, एजीएम में माग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना मत डालने के अधिकारी नहीं होंगे। से मतदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने और एजीएम में ई-मतदान करने की अंतिम तिथि

एजीएम की सुचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयरों को प्राप्त करने और कंपनी का शेयरधारक बनने और अंतिम तिथि, अर्थात शनिवार 12 अगस्त, 2023 को शेयर रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा evoling@nsdl.co.in या ashok.sherugar@ गोंगीन आईडी और पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है।

लागान आइडा आर पासवड प्राप्त ाक्या जा सकता हा '
एर्जिएम में सिमई-चें विर्मार्थ हैं-चें सीटिंग के लिए प्रक्रिया 88वीं एर्जीएम के नोट में प्रदान की गई है। सदस्य, जिन्हें बीसी के माध्यम से ई-एर्जीएम में
भाग लेने के लिए सहायता की आवश्यकता हैं, पत्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल से availing@nsdi.co.in पर या टेलीफोन नंबर
022-4886 7000 / 022-2499 7000 के माध्यम से संपर्क कर सकते है। ई-बीटिंग के मानले में सर्वाधित किसी भी प्रश्न के मामले में सर्वाधित किसी की किसी भी प्रश्न के स्वीधित के स् ttps://www.evoting.nsdl.com या निम्नलिखित नंबर 022-4886 7000 / 022-2499 7000 /evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से संपर्क कर कते है या श्री अशोक श्रेरूगर, C-101, 247 पार्क, LBS मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुम्बई-400083, ईमेल आईडी ashok.sherugar@linkintime.co.in

टलाया गचर व्यवस्था कारण कारण कारण कर विकास इन सदस्यों हारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिनका ई–मेल आईडी, डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, वे उपयोगकर्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्ति के लिए एवं एजीएम नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई–वोटिंग करने हेतु ई–मेल पतों का पंजीकृत / अपडेट करने का तरीका :

- यदि शेयर भीतिक मोड में रखे गए है तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे की स्केन की हुई काँपी), पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित स्केन की गई काँपी), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित स्केन काँपी की प्रतितिपि) प्रदान करें
- पन (पन कांड को स्थर तस्तापत रूपन को गड़ कापा), आवार कांड (स्थर तस्तापत रूपन कांच को आताला) असान कर mt.helptass@infaltime.cb.in पर इंगेन हारा यदि शेयर डीमेट मोड में है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंको की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंको की लामार्थी आईडी) नाम, प्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन(स्व सत्यापित की गई प्रति), आधार कार्ड (स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि), प्रदान करें rnt.helpdesk@linkinlime.co.in पर ईमेल द्वारा वैकल्पिक रूप से सदस्य प्वाइंट (a)या (b)में उल्लिखित विवरण को प्रदान करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया और एजीएम की कार्यवाही का लाईव बेबकास पासा / आपवाएन के मध्यम से एजाएन ने शामिक होना का प्राकृत आहे एका पर को काववाहां का लाइन विकास प्रेमयमांक मोहम् //www.noing.noil.com पर अगरे नियों हैं चोटिंग लानिन किहेंशियल्स का प्रयोग करते हुए और कंपनी की एजीएम के लिए "EVEN" को सिलेक्ट करते हुए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं या एजीएम का लाईव वेक्कास्ट देख सकते हैं। वीसी/ओवीएम ने माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में उत्लिख्त की माई है। अंशयमारकों के मुनेपोढ़ है एजीएम की सूचना में निर्येट सभी टिप्पणियों और विशेषक एजीएम में भीस्ति होने से सबंधित अनुदेशों, दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के तरीके से सबंधित अनुदेशों, को ध्यानपूर्वक पढ़ सें।

कृते एसआईएल इन्वेस्टमेंटस लिमिटेड लोकेश गाँधी

स्थान : मुंबई दिनांक : 27 जुलाई, 2023

voting@nsdl.co.in पर ई-मेल अनरोध भेज सकते है ।

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी